



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2017

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन)

फा.सं.2-4/2015 (डीईबी-III).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के खंड (ज) के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) कहा जाएगा।

1.2 यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 में विनियम 19 में उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः —

“(2) शिक्षा वर्ष 2016-17 तक मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम चलाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् की नीतियों के आधार पर स्टैण्डालोन संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों अर्थात् प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिन्हें आयोग द्वारा भी अनुमोदित किया गया है, वे शिक्षा सत्र 2017-18 तक मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति के क्षेत्र में वैध कार्यक्रम रहेंगे और तत्पश्चात् इन मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने संबंधी विनियमों के प्रयोजनार्थ वे अपने स्टैण्डालोन संस्थान के दर्जे को विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, ऐसा नहीं करने पर, आयोग स्टैण्डालोन संस्थानों के इन मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रमों को कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा। ”

पी.के.ठाकुर, सचिव (वि.अ.आ.)

[विज्ञापन—III/4/असा./262/17]

नोट : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—III, खंड 4, में फा.सं. 2-4/2015 (डीईबी-III) के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2017

University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 (First Amendment)

F.No. 2-4/2015 (DEB-III).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, namely:—

1. Short title, Application and Commencement:

- 1.1 These regulations may be called the **University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 (First Amendment)**
- 1.2 These shall come into the force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, in regulation 19, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted namely:—

“(2) Certificates or Diplomas or Post Graduate Diplomas awarded by the Standalone Institutions which also have been approved by the Commission based on the policies of the then Distance Education Council of the Indira Gandhi National Open University for running Open and Distance Learning programmes till the academic year 2016-17 shall remain valid programmes in the field of Open and Distance Learning mode of education till the academic session 2017-18 and thereafter they shall be free to get converted their Standalone Institution status to University or Deemed to be University for the purpose of these Open and Distance Learning regulations, failing which, the Commission shall not accord any approval to the Open and Distance Learning programmes of Standalone Institutions.”

P.K. THAKUR, Secy. (UGC)

[ADVT.- III/4/Exty./262/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-III, Section 4, dated 23rd June, 2017 vide F. No. 2-4/2015 (DEB-III).